



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 भाद्र 1940 (श०)  
(सं० पटना 814) पटना, शुक्रवार, 31 अगस्त 2018

---

सं० 5/स० अनु० जाति (खा०बो०)-02/2018 -3671

उद्योग विभाग

संकल्प

27 अगस्त 2018

विषय :- बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के लाभुको को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रू० 9,32,84,000.00 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 1178 दिनांक 19.03.2018 एवं विभागीय संकल्प सं० 2314 दिनांक 04.06.2018 में विभागीय संकल्प सं० 782 दिनांक 17.05.2018 के अनुरूप संशोधित करने के संबंध में।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1178 दिनांक 19.03.2018 द्वारा बिहार राज्य में ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति के लाभुकों को उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रू० 9,32,84,000.00 (नौ करोड़ बत्तीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति आदेश को संशोधित करते हुए इस योजना की राशि को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में समाहित कर दी गयी है। इस राशि का व्यय बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा बिहार राज्य वित्तीय निगम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति उद्यमी योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम के द्वारा मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति योजना के कार्यान्वयन किये जाने के फलस्वरूप लाभार्थियों के बीच दो संस्थानों के होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तथा दो स्थानों में आधारभूत संरचना (स्वीकृति, राशि की विमुक्ति, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन) पर व्यय भार वहन करना पड़ रहा है, जिसका कुप्रभाव योजना के कार्यान्वयन पर पड़ रहा है।

अतः पूर्व में निर्गत संकल्प सं0 2314 दिनांक 04.06.2018 में इस हद तक संशोधन करते हुए अब बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति योजना का भी कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को आवंटित राशि में से व्यय के उपरान्त अवशेष राशि एक मुश्त बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट को हस्तान्तरित किया जायेगा।

आदेश से,  
डा0 एस0 सिद्धार्थ,  
प्रधान सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 814-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>